

**Dated: 22nd June, 2021**

**To,  
The General Manager  
Department of Corporate Affairs  
BSE Limited  
Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street  
Mumbai – 400001**

**Scrip Code: 526871**

**Sub: Submission under Regulation 47 of SEBI (Listing obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015**

Dear Sir,

As per Clause 47 of the SEBI (Listing obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 please find enclosed herewith Newspaper publication of the Financial Result (Standalone & Consolidated) for the quarter and year ended 31<sup>st</sup> March 2021 which was approved in the Meeting of the Board of Directors of the Company to be held on Monday, 21<sup>st</sup> June, 2021, published in "The Financial Express" (English) and "Hari Bhoomi" (Hindi) on Tuesday, 22<sup>nd</sup> June, 2021 edition.

You are requested to kindly take note of the same on records.

**Thanking You,  
Yours Sincerely,**

**For Intec Capital Limited**

**Vandana Das  
(Company Secretary & Compliance Officer)**

Encl: As above



## Classifieds

### CHANGE OF NAME

**I, Kavleen Bindra, D/o Jasjeet Singh Bindra R/o. C-5A/275, Janak Puri, New Delhi-110058,** have changed my name to **Kavleen Kaur Bindra,** for all purposes.

0040573874-10

**I, SAUMYA D/O SUNIL KUMAR ARORA R/O 40 first floor, M2K white house sector-57 Gurgaon-122003** have changed my name to **SAUMYA ARORA**

0040573788-1

**PUBLIC NOTICE**  
 Be it Known to General Public that my clients Smt. Raj Devi W/o Sh. Suresh, R/o: H.No. C-7/29, Shahbad Dairy, Pehladpur, Delhi-110042 had downded and debarred her son Man Chand from her all moveable and immovable properties because he is out of her control. In case any person deals with him in that event my clients shall not be held liable for his acts and deeds in future.

Sd/-  
**BABY Advocate**  
 En. No. D/651/2020  
 Ch.No.915, 9th Floor, Lawyers Chamber Block, Royni, Delhi-110085

**PUBLIC NOTICE**  
 That my client Sh. Jagdish Hader and Smt. Arti Hader R/o R2B-89, Mahavi Vihar, Sector-11, Dwarka, Delhi-110075, have downded their son namely Animesh Hader and his wife Shalu Jan from their moveable and immovable properties as they have become dishonest and disobeident towards my clients. My clients shall have no concern, connection and will not be responsible in respect of any kind of liabilities dealings, acts, crimina's proceedings etc. done by them in any manner. My clients have also broken up all their relation with them.

Sd/-  
**SUDHIR VATS (ADVOCATE)**  
 1227, LAWYERS CHAMBER ROHINI COURT, NEW DELHI 110085

## “IMPORTANT”

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contants. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals adversing in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

**Indianexpress.com**

**I arrive at a conclusion not an assumption.**

**Inform your opinion with detailed analysis.**

*The Indian Express. For the Indian Intelligent.*

**The Indian Express JOURNALISM OF COURAGE**

**TRIDEV INFRAESTATES LIMITED**  
 (Formerly Known as Ashutosh Paper Mills Limited)  
 (CIN: L65100DL1988PLC033812)  
 Regd. Office: S-524, FIF, School Block, Vikas Marg, Shakarpur Delhi - 110092  
 E-Mail: ashutoshpapermills@gmail.com  
 Website: www.tridevinfraestates.in

**NOTICE**  
 Pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements), Regulations 2015, Notice is hereby given that a meeting of the Board of Directors will be held on **Wednesday 30th June, 2021** inter alia, to consider and approve the Audited Financial Result for the Quarter and year ended on **31st March, 2021** along with other business if any.

The information contained in this notice available on the Company's website at [www.tridevinfraestates.in](http://www.tridevinfraestates.in) and may also be accessed at Stock Exchange website as [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com).

For Tridev Infraestates Limited  
 Sd/-  
**Atul Kumar Agarwal**  
 (Director)  
 Date: 21.06.2021  
 Place: Delhi

**ABHINAV LEASING & FINANCE LIMITED**  
 (CIN: L65100DL1984PLC018748)  
 Regd. Office: S-524, 1st Floor, Vikas Marg, Shakarpur, Delhi -110092  
 E-Mail: abhinavleaseinfintd@gmail.com  
 Website: www.abhinavleaseinfintd.in

**NOTICE**  
 Notice is hereby given that pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements), Regulations 2015, that a meeting of the Board of Directors will be held on **Tuesday 29th June, 2021** inter alia, to consider and approve the Audited Financial Results of the Company for the quarter and year ended on **31st March, 2021** along with other business if any.

The information contained in this notice available on the Company's website at [www.abhinavleaseinfintd.in](http://www.abhinavleaseinfintd.in) and the website of Stock Exchange as [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com).

For Abhinav Leasing & Finance Limited  
 Sd/-  
**Atul Kumar Agarwal**  
 (Director)  
 Date: 21.06.2021  
 Place: Delhi

**SARNIMAL INVESTMENT LIMITED**  
 (CIN: L65100DL1981PLC012431)  
 Regd. Office: 439, Vikas Marg, Jagriti Enclave, Delhi-110092  
 E-Mail: sarnimalinvestltd@gmail.com  
 Website: www.sarnimal.com

**NOTICE**  
 Pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements), Regulations 2015, Notice is hereby given that a meeting of the Board of Directors will be held on **Tuesday 29th day of June, 2021**, inter alia, to consider and approve the audited Financial Result of the Company for the quarter and year ended on **31st March, 2021** along with other business if any.

The said notice may be available on the Company's website at [www.sarnimal.com](http://www.sarnimal.com) and may also be accessed at Stock exchange Website at [www.mseil.in](http://www.mseil.in)

For Sarnimal Investment Limited  
 Sd/-  
**Nitin Agarwal**  
 (Managing Director)  
 Date: 21.02.2021  
 Place: Delhi

**SUSTAINABLE TOURISM FOUNDATION**  
 REGISTERED OFFICE :D-32 Suraj Mal Vihar DELHI East Delhi DL 110092 IN  
 CIN: U85300DL2019NP1355610  
 EMAIL: ns@sustainabletourismfdn.org  
 Form NO. INC -26  
 In the matter of the Companies Act, 2013, Section 13(4) of Companies Act, 2013 and Rule 30(5)(a) of the Companies (Incorporation) Rules, 2014 Before the Central Government, Regional Director Northern Region, New Delhi  
 And  
 In the matter of SUSTAINABLE TOURISM FOUNDATION having its registered office at D-32 SURAJMAL Vihar DELHI East Delhi DL 110092 IN, ..... The Petitioner  
**NOTICE**  
 Notice is hereby given to the General Public that the company proposes to make application to the Central Government under section 13 of the Companies Act, 2013 seeking confirmation of alteration of the Memorandum of Association of the Company in terms of the Special Resolution passed at the Extra Ordinary General Meeting held on Friday, June 18, 2021 to enable the Company to change its Registered office from "State of Delhi" to "State of Haryana" within the jurisdiction of Registrar of Companies Delhi & Haryana". Any person whose interest is likely to be affected by the proposed change of the registered office of the Company may deliver either on the MCA-21 portal ([www.mca.gov.in](http://www.mca.gov.in)) by filing investor complaint form or cause to be delivered or send by registered post of his/her objections supported by an affidavit stating the nature of his/her interest and grounds of opposition to the Regional Director-Northern Region, Ministry of Corporate Affairs, B-2 Wing, 2nd Floor, Paryavaran Bhawan, CGO Complex, New Delhi-110003, within Fourteen days from the date of publication of this notice with a copy to the applicant company at its registered office at the address mentioned above.  
 For and on behalf of the Board  
 SUSTAINABLE TOURISM FOUNDATION  
 Date: June 21, 2021 Sd/- **NIHAR SHARMA**  
 Place: Gurgaon Director DIN-00454257

**Indianexpress.com**

**I arrive at a conclusion not an assumption.**

**Inform your opinion with detailed analysis.**

*The Indian Express. For the Indian Intelligent.*

**The Indian Express JOURNALISM OF COURAGE**

**intec**  
CAPITAL LIMITED

SAPNE AAPKE, BHAROSA APNO KA  
**Intec Capital Limited**  
 CIN: L74899DL1994PLC057410  
 Regd. Off. 708, Manjusha Building, 57 Nehru Place, New Delhi – 110019  
 T+91-11-46522200/300; F+91-1146522333 Website: [www.inteccapital.com](http://www.inteccapital.com)

**STATEMENT OF AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED 31ST MARCH, 2021**

Sr. No.	Particulars	(Rs. in lacs except per equity share data)									
		Standalone			Consolidated			Financial Year ended			
		31.03.2021 (Audited)	31.12.2020 (Unaudited)	31.03.2020 (Audited)	31.03.2021 (Audited)	31.12.2020 (Unaudited)	31.03.2021 (Audited)	31.12.2020 (Unaudited)	31.03.2021 (Audited)	31.03.2021 (Audited)	
1	Total Income from operations	(95.52)	239.66	103.55	804.07	1,723.91	(91.40)	198.76	77.95	696.49	1,621.39
2	Net profit/loss for the period (before tax, exceptional and/or extraordinary items)	2,952.92	(1,060.57)	(1,393.92)	1,825.23	(4,718.88)	2,952.57	(1,105.48)	(1,424.23)	1,701.02	(4,839.79)
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	3,817.45	(1,060.57)	(1,393.92)	2,689.76	(4,718.88)	3,817.10	(1,105.48)	(1,424.23)	2,565.55	(4,839.79)
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	2,924.46	(833.55)	(732.11)	1,903.59	(3,617.65)	2,924.11	(878.46)	(762.42)	1,779.38	(3,738.76)
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	2,926.91	(833.47)	(733.26)	1,906.31	(3,617.28)	2,926.56	(878.38)	(763.57)	1,782.10	(3,738.39)
6	Paid -up Equity share capital (Face Value Rs. 10/- each)	1,836.63	1,836.63	1,836.63	1,836.63	1,836.63	1,836.63	1,836.63	1,836.63	1,836.63	1,836.63
7	Earnings as per share (Face Value of Rs. 10/- each) [For continuing and discontinued operations]										
	1. Basic (in Rs.):	15.92	(4.54)	(3.99)	10.36	(19.70)	15.92	(4.78)	(4.15)	9.69	(20.36)
	2. Diluted (in Rs.):	15.92	(4.54)	(3.99)	10.36	(19.70)	15.92	(4.78)	(4.15)	9.69	(20.36)

- Notes-**
- The above is an extract of the detailed format of audited financial results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Financial results are available on the stock Exchange websites viz. [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) and on company's website viz. [www.inteccapital.com](http://www.inteccapital.com).
  - The above financials have been reviewed and recommended by the Audit Committee and subsequently approved and taken on records by the Board of Director at their meetings held on June 21, 2021.
  - The said financial results of the Company have been prepared in accordance with Indian Accounting Standards (the "Ind AS") prescribed under section 133 of the Companies Act, 2013.
  - Qualification of Statutory Auditor for Standalone results: The Company has availed term loans and working capital facilities from various banks, however, slow down of its lending business and increased level of non-performing / impaired loan portfolio, has impacted its cash flow / liquidity, and the Company is un-able to service term loans and working capital facilities including interest thereon to certain banks. The interest of Rs. 1,430.06 lakhs accrued on these loans has not been accounted / provided for by the Company, due to the reasons as described by the Company in note no. 4 to these standalone financial results. The same has resulted in the non-compliance of the Ind AS and inconsistency in the application of the accounting policies of the Company, and if the said interest would have been accounted / provided for, the Company's total comprehensive income for the year, and borrowings and other equity as at the Balance Sheet date would have been Rs. 476.25 lakhs and Rs. 8,585.21 lakhs and Rs. 3,960.02 lakhs as against the reported figures of Rs. 1,906.31 lakhs and Rs. 7,155.15 lakhs and Rs. 5,390.08 lakhs respectively.
  - Qualification of Statutory Auditor for Consolidated results: The Holding Company has availed term loans and working capital facilities from various banks, however, slow down of its lending business and increased level of non-performing / impaired loan portfolio, has impacted its cash flow / liquidity, and the Holding Company is un-able to service term loans and working capital facilities including interest thereon to certain banks. The interest of Rs. 1,430.06 lakhs accrued on these bans has not been accounted / provided for by the Company, due to the reasons as described by the Company in note no. 5 to these consolidated financial results. The same has resulted in the non-compliance of the Ind AS and inconsistency in the application of the accounting policies of the Group, and if the said interest would have been accounted / provided for, the Group's total comprehensive income for the year, and borrowings and other equity as at the Balance Sheet date would have been Rs. 352.04 lakhs and Rs. 8,585.21 lakhs and Rs. 3,320.20 lakhs, as against the reported figures of Rs. 1,782.10 lakhs and Rs. 7,155.15 lakhs and Rs. 4,750.26 lakhs respectively.

For and on behalf of the Board of Directors of Intec Capital Limited  
 Sd/-  
**Sanjeev Goel**  
 (Managing Director)  
 DIN - 00028702

Place : New Delhi  
 Date : June 21, 2021

**JAIPRAKASH ASSOCIATES LIMITED**

Regd. Office : Sector 128, Noida 201 304 [U.P.]  
 Head Office: 'JA House', 63, Basant Lok, Vasant Vihar, New Delhi - 110 057  
 Phone : + 91 (120) 4609000; FAX : + 91 (120) 4609464; CIN : L14106UP1995PLC019017 Website : [www.jalindia.com](http://www.jalindia.com), E-mail : [jal.investor@jalindia.co.in](mailto:jal.investor@jalindia.co.in)

**EXTRACT OF AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED 31<sup>ST</sup> MARCH, 2021**

Sl. No.	Particulars	STANDALONE					CONSOLIDATED				
		Quarter Ended 31.03.2021 [Unaudited]	Quarter Ended 31.12.2020 [Unaudited]	Quarter Ended 31.03.2020 [Unaudited]	Year Ended 31.03.2021 [Audited]	Year Ended 31.03.2020 [Audited]	Quarter Ended 31.03.2021 [Unaudited]	Quarter Ended 31.12.2020 [Unaudited]	Quarter Ended 31.03.2020 [Unaudited]	Year Ended 31.03.2021 [Audited]	Year Ended 31.03.2020 [Audited]
		200579	90185	117204	434287	461913	251720	144035	187603	640566	703549
1.	Total Income from Operations	200579	90185	117204	434287	461913	251720	144035	187603	640566	703549
2.	Net Profit/(Loss) for the period [before Tax, Exceptional and Extraordinary Items]	57674	(18980)	(32305)	(24434)	(91287)	43856	(30849)	(43778)	(68592)	(296026)
3.	Net Profit/(Loss) for the period before Tax [after Exceptional and Extraordinary Items]	56391	(18980)	(30669)	(25717)	(89118)	43856	(30849)	346214	(65864)	94499
4.	Net Profit/(Loss) for the period after Tax [after Exceptional and Extraordinary Items]	56040	(19386)	(30737)	(27140)	(89283)	42441	(30206)	306810	(66731)	56076
5.	Total Comprehensive Income for the period [comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	56733	(19386)	(31029)	(26447)	(89575)	43124	(30200)	306455	(66044)	55703
6.	Equity Share Capital [of ₹ 2/- per share]	48885	48649	48649	48885	48649	48885	48649	48649	48885	48649
7.	Other Equity [excluding Revaluation Reserve]				713050	736872				107331	169540
8.	Earnings Per Share [of ₹ 2/- per share] [for continuing and discontinued operations]:										
	Basic	₹ 2.31	₹ (0.80)	₹ (1.26)	₹ (1.11)	₹ (3.67)	₹ 1.75	₹ (1.22)	₹ 12.66	₹ (2.72)	₹ 4.50
	Diluted	₹ 2.31	₹ (0.80)	₹ (1.26)	₹ (1.11)	₹ (3.67)	₹ 1.75	₹ (1.22)	₹ 12.66	₹ (2.72)	₹ 4.50

**Note:**

The above is an extract of the detailed format of Quarter and Year ended 31<sup>st</sup> March, 2021 Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarter and Year ended 31<sup>st</sup> March, 2021 Financial Results are available on the Stock Exchanges Website [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com) and [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) and on the Company's Website, [www.jalindia.com](http://www.jalindia.com).

Place : New Delhi  
 Dated : 21<sup>st</sup> June, 2021

**JAYPEE GROUP**

Construction  
Power  
 cement  
Hospitality  
Real Estate  
Fertilizers  
Beds International Group

— NO DREAM TOO BIG —

**MANOJ GAUR**  
 Executive Chairman  
 DIN 00008480

**INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE COMPANY LIMITED**  
 (A Government Of India Enterprise)  
 Registered Office: 5<sup>th</sup> Floor, Block 2, Plate A & B, NBCC Tower, East Kidwai Nagar, New Delhi-110023  
 CIN No. U67190DL2006GO144520 Website: [www.iifcl.in](http://www.iifcl.in), E- mail: [info@iifcl.in](mailto:info@iifcl.in), Phone: +91-11-24682777

**Extract of Standalone Financial Results for the Year ended 31<sup>st</sup> March 2021**

(₹ in Lakhs)			
Sl. No.	Particulars	Year Ended 31.03.2021 (Audited)	Year Ended 31.03.2020 (Audited)
1	Total Income from operations	334,556.29	381,309.05
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	31,542.57	(29,148.48)
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	31,542.57	(29,148.48)
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	28,527.43	5,091.81
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	28,576.37	5,120.30
6	Paid up Equity Share Capital	999,991.62	999,991.62
7	Reserves (excluding Revaluation Reserves )	65,455.46	30,586.29
8	Net Worth	1,065,447.08	1,030,577.91
9	Debt Equity Ratio	3.73	3.54
10	"Weighted Average Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations) - 1. Basic (Rs.): 2. Diluted (Rs.):	0.29 0.29	0.11 0.11
11	Debtenture Redemption Reserve	99,995.05	99,995.05

**Note:**

- The above is an extract of the detailed format of half yearly/annual financial results filed with the Stock Exchanges under Regulation 52 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the half yearly/annual financial results are available on [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com), [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com) and on [www.iifcl.in](http://www.iifcl.in).
- For the items referred in sub-clauses (a), (b), (d) and (e) of the Regulation 52 (4) of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the pertinent disclosures have been made to the Stock Exchange (BSE and NSE) and can be accessed on [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) and [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com).
- The above results have been reviewed by the Audit Committee at their Meeting held on 21<sup>st</sup> June 2021 and approved by the Board of Directors of the company at their Meeting held on 21<sup>st</sup> June 2021. The results for the year ended 31<sup>st</sup> March 2021 are audited by the Statutory Auditors of IIFCL.
- In accordance with the Guidelines relating to COVID-19 Regulatory Package dated 27<sup>th</sup> March 2020 and 17<sup>th</sup> April 2020, the RBI allowed Commercial banks, Co-operative banks, Financial institutions and NBFCs to grant a 3-month moratorium on payment of instalments of all term loans which were standard assets as on 29<sup>th</sup> February 2020. The objective was to help alleviate the hardship of borrowers which was brought on by the national lockdown. The moratorium was initially granted for three months on payment of all instalments, including principal or interest components etc. falling due between 1<sup>st</sup> March 2020 and 31<sup>st</sup> May 2020. On 22nd May 2020, RBI extended this moratorium period by 3 months i.e. up to August 31, 2020. Interest continued to accrue on the outstanding portion of the loan during the moratorium period. For all accounts where the moratorium was granted, the ageing of accounts remained stand still during the moratorium period. Lenders were required to put in place Board approved policy prior to offering their customers the moratorium. Lenders have adopted different methods in offering the moratorium either an 'opt-in' or 'opt-out' structure. IIFCL has extended Moratorium for payment of Interest and Principal in eligible cases of Term Loans granted, for the period March 2020 to August 2020 in accordance with RBI Circulars. The repayment of the facility created, in such cases have been stipulated within the repayment period of the Original Term Loan. During half year ended 30<sup>th</sup> September 2020, IIFCL recognized deferred interest income in moratorium loan cases without treating the same as restructuring in terms of direction no DCB.BPD (PCB) MC No. 12/09.14.000/2015-16 dated July 1, 2015. IIFCL vide letter dated 12<sup>th</sup> November 2020 requested RBI to guide that the recognition of interest income by IIFCL is in line with regulatory conformity. RBI reply in this regard is still awaited. Consequently as on 31<sup>st</sup> March 2021, IIFCL has conservatively deferred recognition of unrealized interest income of ₹45,914.50 lacs for moratorium period on moratorium loan cases till realization subsequently.
- In accordance with the instructions of RBI Circular dated 07.04.2021 on "Asset Classification and Income Recognition following the expiry of Covid 19 regulatory package", the Bank shall refund/adjust interest on interest" charged to all borrowers including those who had availed of working capital facilities during moratorium period i.e. 01.03.2020 to 31.08.2020, irrespective of whether moratorium had been fully or partially availed, or not availed. Pursuant to these instructions, the methodology for calculation of the amount to be refunded/adjusted for different facilities has been finalized by the Indian Bank Association (IBA) in consultation with other industry participants/bodies, for adopting by all the lending institutions. Accordingly, IBA vide its letter dated 19.04.2021 has informed methodology finalised for refund/adjustment as per Supreme Court judgement. Accordingly, IIFCL has not recognised the estimated amount of interest on interest income of ₹2,500 lacs during the year ended on 31.03.2021.

**For and behalf of Board of Directors**  
 Sd/-  
**PR Jaishankar**  
 (Managing Director)  
 DIN No.: 6711526

Dated : 21.06.2021  
 Place : New Delhi

**SALE NOTICE**  
**OSWAL SPINNING AND WEAVING MILLS LIMITED**  
 (Under Liquidation)  
 Liquidator: Mr. Hemanshu Jetley  
 Address for correspondence: S.C.O- 818, First Floor, above YES Bank, NAC, Manimajra, Chandigarh- 160101  
 Email: [hejjetley@gmail.com](mailto:hejjetley@gmail.com) and [ip.oswal808@ducturus.com](mailto:ip.oswal808@ducturus.com), Mobile- +91 90417- 00000

**E-AUCTION**  
 Sale of Assets under Insolvency and Bankruptcy Code, 2016  
**Date and Time of E-Auction: 12 July 2021 at 3:00 P.M. to 5:00 P.M.**  
 (With unlimited extension of 5 minutes each)  
 Sale of Assets and Properties owned by Oswal Spinning and Weaving Mills Limited (under Liquidation) forming part of Liquidation Estate formed by the Liquidator, appointed by the Hon'ble National Company Law Tribunal, Chandigarh vide order dated 13 December 2019. The sale will be done by the undersigned through the e-auction platform <https://resolutionbazaar.com>

Asset	Block	Reserve Price	EMD Amount	Incremental Value
Vehicle (Four Wheeler)- Skoda Octavia	A	Rs. 5,35,000/-	Rs. 53,500/-	Rs. 10,000/-
125160 equity shares of Oswal Worsted Spinners Ltd. of Rs. 10 each	B	Rs. 1,10,000/-	Rs. 11,000/-	Rs. 5,000/-

**NOTE:** The sale of assets mentioned above will be subject to GST (if applicable) to be borne by the buyer in addition to the sale value.

**MODE OF SALE:**  
 Block A and B to be sold in accordance with mode prescribed in Regulation 32 (a) of the IBBI (Liquidation Process) Regulations, 2016 i.e. sale of an asset on a standalone basis.

**Terms and Condition of the E-auction are as under**


- E-Auction will be conducted on "AS IS WHERE IS", "AS IS WHAT IS" and "WHATEVER THERE IS BASIS" through approved service provider "Resolution Bazaar".
- The Complete E-Auction process document containing details of the Assets, online e- auction Bid Form, Declaration and Undertaking Form, General Terms and Conditions of online auction sale are available on website <https://resolutionbazaar.com> this link: <https://resolutionbazaar.com/forums/sale-of-standalone-assets>, 139/. In case of any technical problem, kindly contactathelpdesk@resolutionbazaar.com.
- The intending bidders, prior to submitting their bid, should make their independent inquiries regarding the title of property, and inspect the property at their own expenses and satisfy themselves. The properties mentioned above canbe inspected by the prospective bidders at the site with prior appointment, contacting Mr. Gaurav: +91-73411 05241.
- The intending bidders are required to deposit Earnest Money Deposit (EMD) amount either through DD/NEFT/RTGS in the Account of "OSWAL SPINNING AND WEAVING MILLS LTD UNDER LIQUIDATION", Account No.: 33060210001318, IFSC Code: UCBA0003306, Branch: UCO BANK, MANIMAJRA, or through DD drawn on any Scheduled Bank in the name of "OSWAL SPINNING AND WEAVING MILLS LTD UNDER LIQUIDATION" or



# दुनिया को भारत का बहुमूल्य उपहार है योग : कोविंद

21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने योग किया। इस अवसर आयोजित कार्यक्रमों में केंद्रीय मंत्रियों ने भी हिस्सा लिया

## राष्ट्रपति ने किया योग



एजेसी ►► नई दिल्ली

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर देशवासियों को बधाई देते हुए कहा कि योग कोविड-19 के दौरान बेहद मददगार साबित हो सकता है। योग भारत द्वारा दुनिया को दिए गए सबसे महान उपहारों में से एक है। हर साल 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पूरे उत्साह के साथ मनाया जाता है। राष्ट्रपति कोविंद ने योग करते हुए अपनी तस्वीर ट्विटर पर साझा की और ट्वीट किया। हजारों वर्षों से लाखों-करोड़ों लोगों को स्वस्थ एवं खुशहाल जीवन का वरदान और शरीर एवं मन के संयोजन का साधन, योग के रूप में हमारे ऋषियों ने विश्व को दिया है।

## हरियाणा में योग को बढ़ावा देने के लिए गठित किया आयोग



चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योग किया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा हरियाणा में हमने योग को आगे बढ़ाने के लिए योग आयोग का गठन किया है।



## योग दुनिया को सबसे बड़ा मेड इन इंडिया गिफ्ट : नकवी

केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने सूची के रामपुर में आयोजित योग कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि योग दुनिया के लोगों की सेहत का एक मेड इन इंडिया नायाब गिफ्ट है। इसने दुनिया की सेहत और सलामती को बहुत मजबूती दी है। कोरोना काल में जहां एक तरफ मेडिसिन ने काम किया तो दूसरी तरफ मेडिटेशन ने भी वही काम किया। केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री अनुराग ठाकुर ने योग दिवस पर योग को महामारी के समय में दुनिया के लिए वरदान बताया। उन्होंने कहा कि महामारी के समय में योग ने हमारी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का काम किया है। लोगों को इससे न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक स्वास्थ्य सुधारने में भी मदद मिली है।

केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और नितिन गडकरी योग करते हुए।



केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने पटना में आयोजित योग कार्यक्रम में हिस्सा लिया।

## देश और लोगों के लिए जानकारी है योग : नायडू



उप-राष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने लोगों से योग को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने की सोमवार को अपील की। नायडू ने अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की बधाई देते हुए कहा योग हमारी न केवल शारीरिक और मानसिक रूप से मदद करता है, बल्कि यह समाज की सेहत की बेहतरी के लिए भी अछूट है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि यह लोगों और देश दोनों के लिए लाभकारी है। इससे पहले, नायडू ने यहां उपराष्ट्रपति आवास के मैदान में अपनी पत्नी उपस्मा के साथ योग किया। सातवां अंतरराष्ट्रीय योग दिवस सोमवार को मनाया जा रहा है।

## खबर संक्षेप



## गोवा में 28 तक बढ़ाया गया कोरोना कर्फ्यू

पणजी। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने राज्य में कोरोना वायरस महामारी के कारण लगाये गए कर्फ्यू को 28 जून तक बढ़ाने की घोषणा की है। सिनेमा हॉल, थिएटर, मल्टीप्लेक्स, मनोरंजन क्षेत्र को छोड़कर शॉपिंग मॉल में दुकानों को सुबह 7 बजे से अपराह्न 3 बजे के बीच खोलने की अनुमति है। मछली बाजार भी खुल सकता है। गोवा में कर्फ्यू पहली बार इस साल 9 मई को लगाया गया था और तब से इसे कई बार बढ़ाया जा चुका है।

## अँ पर सिंघवी व बाबा रामदेव में हुई बहस

नई दिल्ली। दुनिया आज अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मना रही है। कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी के एक ट्वीट पर विवाद खड़ा हो गया है। उन्होंने ट्वीट किया, 'ॐ के उच्चारण से न तो योग ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगा और न अल्लाह कहने से योग की शक्ति कम होगी। इस पर योग गुरु बाबा रामदेव ने कहा, ईश्वर-अल्लाह तबो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। अल्लाह, भगवान, खुदा सब एक ही हैं, ऐसे में ॐ बोलने में दिक्कत क्या है? हम किसी को खुदा बोलने से मना नहीं कर रहे हैं।

## प. बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा खतरनाक

कोलकाता। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने कहा कि राज्य में चुनाव के बाद हुई हिंसा से उपजी स्थिति खतरनाक है। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर ममता बनर्जी ने शुरुआती रवैया अपनाया है। धनखड़ ने उत्तर बंगाल की एक सप्ताह की यात्रा की शुरुआत की और इस दौरान उन्होंने हिंसा के शिकार हुए लोगों के साथ राज्य सरकार के बर्ताव की आलोचना की। उन्होंने कहा प. बंगाल में दो मई के बाद हुई हिंसा के बारे में मुझे चिंता है।

## भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी घोषित

सात उपाध्यक्ष, तीन महामंत्री तथा सात मंत्रियों को दिया स्थान  
♦ दिल्ली की रेखा गुप्ता उपाध्यक्ष, मध्यप्रदेश की सुखप्रतीत कौर महामंत्री तथा हरियाणा की लतिका शर्मा कोषाध्यक्ष बनीं

हरिभूमि ब्यूरो ►► नई दिल्ली

भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सोमवार को घोषणा की गई। दिल्ली भाजपा की रेखा गुप्ता को उपाध्यक्ष, हरियाणा की लतिका शर्मा को कोषाध्यक्ष तथा दिल्ली से नीतू डबास को मीडिया प्रभारी बनाया गया है। महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष वानथी श्रीनिवासन ने अपनी टीम में कुल सात उपाध्यक्ष, तीन महामंत्री, एक कोषाध्यक्ष के अलावा सात मंत्री को जगह दी है। रश्मि शर्मा को कार्यालय प्रभारी तथा सुजाता सावत पढ़ी को सोशल मीडिया प्रभारी नियुक्त किया है।

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में वैक्सीनेशन सेंटर शुरू करने के बाद कहा

# 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी नागरिकों को निःशुल्क वैक्सीन लगाना बड़ी चुनौती

एजेसी ►► अहमदाबाद

देश में 18 साल से अधिक उम्र वालों के लिए सोमवार से मुफ्त वैक्सीनेशन की शुरुआत हो गई है। इस दौर में पहले रजिस्ट्रेशन कराने की बाध्यता भी खत्म कर दी गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद के पंडित दीनदयाल उपाध्याय सेंटर में 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के टीकाकरण का जायजा लिया। इस अवसर पर उन्होंने कहा भारत सरकार ने जुलाई और अगस्त में टीके लगाने की रफ्तार बढ़ाने की योजना तैयार की है। उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी आबादी वाले देश में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों को एक साथ टीके लगाना बड़ी चुनौती है। उन्होंने कहा आज योग दिवस के दिन इसकी देशभर में शुरुआत हो रही है। अब हम तेजी से सभी को टीका देने के लक्ष्य के आसपास पहुंच जायेंगे।

## पीएम मोदी की पहल पर योग दिवस पर शुरू किया गया टीकाकरण अभियान

इसमें सहयोग करें, टीकाकरण होते ही कोरोना से सुरक्षित हो जाएगा समाज



## कोरोना वायरस से लड़ाई का नया चरण शुरू

अमित शाह ने कहा, पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सोमवार से कोरोना के खिलाफ लड़ाई की एक नए चरण की शुरुआत हो रही है। पीएम मोदी ने एक निर्णय लिया था कि 21 जून से 18 साल या उससे अधिक उम्र के लोगों को केंद्र सरकार द्वारा मुफ्त में टीका लगाया जाएगा। इसके तहत टीकाकरण की प्रक्रिया को तेज किया गया है। गृहमंत्री शाह ने वैक्सीनेशन सेंटर के उद्घाटन के बाद कहा देश में वैक्सीनेशन महाअभियान शुरू किया गया है। यह कोरोना से सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी पहल है। इस पहल में हर वर्ग के लोग हिस्सा लें। तभी इस लड़ाई को जीता जा सकता है।

## वैक्सीन लगवाकर कोरोना से मुक्ति के अभियान को दें मजबूती

उन्होंने कहा जुलाई और अगस्त में टीके लगाने की रफ्तार को बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। कोरोना से नागरिकों को बचाने के लिए भारत सरकार के इस निर्णय से सभी को राहत मिलेगी। सभी नागरिकों से अपील है कि आप टीका जरूर लगवाएं और समय पर दूसरा टीका भी लगवा लीजिए। गौरतलब है कि देश में 18 साल से अधिक उम्र वालों के लिए सोमवार से शुरू होने वाले मुफ्त वैक्सीनेशन अभियान के दौरान जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, उनको भी टीका लगाया जाएगा। इस चरण में रजिस्ट्रेशन की बाध्यता खत्म कर दी गई है।

## राज्यों के पास अब भी बचे हैं कोरोना के तीन करोड़ टीके

हरिभूमि ब्यूरो ►► नई दिल्ली

केंद्र सरकार की ओर से फिर दोहराया गया है कि देश में कोरोना के खिलाफ चल रहे टीकाकरण अभियान को जारी रखने के लिए टीकों की कोई कमी नहीं है। दावा किया गया है कि अभी भी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के पास 2.98 करोड़ से ज्यादा टीकों की खुराक मौजूद है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से सोमवार को बताया गया कि केंद्र सरकार की ओर से राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों को अब तक कोरोना वायरस के खिलाफ इस्तेमाल किए जा रहे विभिन्न कंपनियों द्वारा बनाए गए 29,35,04,820 टीके की खुराक उपलब्ध कराए गए हैं।


## 26,36,26,884 टीके लोगों को लगाए गए

जिसमें से अब तक 26,36,26,884 टीके लोगों को लगाए जा चुके हैं। जबकि 2,98,77,936 करोड़ अभी भी उनके पास मौजूद हैं। मंत्रालय ने कहा कि केंद्र सरकार राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों को मुफ्त टीके उपलब्ध कराकर उन्हें टीकाकरण करने में सहयोग कर रही है। इसके अलावा केंद्र राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को टीकों की सीधी खरीद करने की सुविधा भी उन्हें दी रही है। मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटे के दौरान देश भर में कुल 30,39,996 टीके लोगों को लगाए गए।



## लगता है ट्रैक्टर, ट्रिक्टर टैंक तीनों चलाने पड़ेंगे

नई दिल्ली। नए कृषि कानूनों के खिलाफ सरकार रविवार से नाराज किसान नेता राकेश टिकैत ने किसानों से आंदोलन तेज करने की अपील की है। राकेश टिकैत ने कहा ट्रैक्टर के साथ अपनी तैयारी रखो। ट्रैक्टर यात्रा करने होंगी। 26 तरीका हर महीने आती है। ट्रैक्टर यात्राएं चलती रहेंगी। 24 से 26 तरीका तक किसान ट्रैक्टर लेकर आएंगे। राकेश टिकैत ने कहा कि किसानों को उनका हक दिलाने के लिए लगता है ट्रैक, ट्रिक्टर और ट्रैक्टर तीनों चलानी पड़ेंगी।

<div><div><div><div><div><div></div><div>SAPNE AAPKE, BHAROSA APNO KA</div></div></div><div>इंटेक कैपिटल लिमिटेड</div><div>CIN: L74899DL1994PLC057410</div></div><div>पंजी. कार्यालय : 708, मंजूषा बिल्डिंग, 57 नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110019</div><div>T-91-11-46522200/300; F-91-1146522333 Website: www.inteccapital.com</div></div></div>											
31 मार्च 2021 को समाप्त तिमाही और वर्ष हेतु अंकेक्षित वित्तीय परिणामों का विवरण											
(प्रति इक्विटी शेयर डेटा को छोड़कर र. लाखों में)											
क्र. सं.	विवरण	स्टैंडअलोन						समेकित			
		समाप्त तिमाही			समाप्त वित्तीय वर्ष			समाप्त तिमाही		समाप्त वित्तीय वर्ष	
		31.03.2021 (अंकेक्षित)	31.12.2020 (अंकेक्षित)	31.03.2020 (अंकेक्षित)	31.03.2021 (अंकेक्षित)	31.12.2020 (अंकेक्षित)	31.03.2021 (अंकेक्षित)	31.03.2020 (अंकेक्षित)	31.03.2021 (अंकेक्षित)	31.03.2020 (अंकेक्षित)	
1	प्रचालनों से कुल आय	(95.52)	239.66	103.55	804.07	1,723.91	(91.40)	198.75	77.95	696.49	1,621.39
2	अवधि हेतु शुद्ध लाभ/हानि (कर, असाधारण और/अथवा असामान्य घाटों से पूर्व)	2,952.92	(1,060.57)	(1,393.92)	1,825.23	(4,718.68)	2,952.57	(1,105.48)	(1,424.23)	1,701.02	(4,839.79)
3	कर से पूर्व अवधि हेतु शुद्ध लाभ/(हानि) (असाधारण और/अथवा असामान्य घाटों के बाद)	3,817.45	(1,060.57)	(1,393.92)	2,689.76	(4,718.68)	3,817.10	(1,105.48)	(1,424.23)	2,565.55	(4,839.79)
4	कर के बाद अवधि हेतु शुद्ध लाभ / (हानि) (असाधारण और/अथवा असामान्य घाटों के बाद)	2,924.46	(833.55)	(732.11)	1,903.59	(3,617.65)	2,924.11	(878.46)	(762.42)	1,779.38	(3,738.76)
5	अवधि हेतु कुल व्यापक आय "[अवधि हेतु निहित लाभ/हानि + (कर के बाद) और अन्य व्यापक "आय (कर के बाद)]"	2,926.91	(833.47)	(733.26)	1,906.31	(3,617.28)	2,926.56	(878.38)	(763.57)	1,782.10	(3,738.39)
6	भुगतान किया गया इक्विटी शेयर कैपिटल (रु. 10/- प्रत्येक का प्रत्यक्ष मूल्य)	1,836.63	1,836.63	1,836.63	1,836.63	1,836.63	1,836.63	1,836.63	1,836.63	1,836.63	1,836.63
7	अर्जन प्रति शेयर (प्रत्यक्ष मूल्य रु. 10/- प्रत्येक) (निरंतर और अनिंतर प्रचालनों हेतु)										
	1. बेसिक (रु. में) :	15.92	(4.54)	(3.99)	10.36	(19.70)	15.92	(4.78)	(4.15)	9.69	(20.36)
	2. ढायायुद्ध (रु. में) :	15.92	(4.54)	(3.99)	10.36	(19.70)	15.92	(4.78)	(4.15)	9.69	(20.36)
टिप्पणी :-											
1. उपरोक्त सेबो (लिमिटेड ऑब्जेक्शन एवं घोषणा आवश्यकताएं) नियम 2015 के नियम 33 के तहत स्टॉक एक्सचेंज के पास दायर किये गये अंकेक्षित वित्तीय परिणामों के विनियुक्त प्रारूप का साह है। वित्तीय परिणामों का पूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचेंज वेबसाइट्स अर्थात <a href="http://www.bseindia.com">www.bseindia.com</a> तथा कम्पनी की वेबसाइट <a href="http://www.inteccapital.com">www.inteccapital.com</a> पर उपलब्ध है।											
2. उपरोक्त वित्तीय परिणामों की समीक्षा कर ली गई है और ऑडिट कमेटी द्वारा अनुमोदित कर दिये गये तथा तदुपरांत 21 जून 2021 को आयोजित उनकी बैठकों में निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किये गये और रिकार्ड पर लिये गये।											
3. कम्पनी के उक्त वित्तीय परिणाम कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 133 के तहत निर्धारित भारतीय लेखा मानकों (The "Ind AS") के अनुसार तैयार किये गये हैं।											
4. स्टैंडअलोन परिणामों हेतु वैधानिक अंकेक्षक की योग्यता : कम्पनी विभिन्न बैंकों से सावधि ऋण और कार्य पूंजी का लाभ उठा चुकी है, यद्यपि इसके उधार देने के बिजनेस योजना होने के कारण और नॉन-परफॉर्मिंग/क्षतिग्रस्त ऋण पोर्टफोलियो के बढ़ते स्तर का प्रभाव इसके नकद फ्लो/लिक्विडिटी पर पड़ चुका है, और कम्पनी सावधि ऋणों और कार्य पूंजी सुविधाओं समेत कुछ बैंकों से उधार पर ब्याज की तामील करने में असमर्थ है। इन स्टैंडअलोन वित्तीय परिणामों की टिप्पणी सं. 4 में कम्पनी द्वारा वर्णित अनुसार कारणों की वजह से इन ऋणों पर उपाजित रु. 1,430.06 लाख के ब्याज की गणना / कम्पनी द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया है। इसके परिणामस्वरूप Ind-AS और कम्पनी की लेखा नीतियों के आवेदन में असंगति की अनुभूति नहीं हुई है और यदि उक्त ब्याज की गणना / उपलब्ध कराया दिया गया होता तो कम्पनी की वर्ष हेतु कुल व्यापक आय, और उधार और बैलेंस शीट डेट के अनुसार अन्य इक्विटी रु. 1906.31 लाख और रु. 7155.15 लाख और रु. 5390.08 लाख के रिपॉजिट आंकड़ों के प्रतिकूल रु. 476.25 लाख और रु. 8585.21 लाख और रु. 3960.02 लाख क्रमशः होते।											
5. समेकित परिणामों हेतु वैधानिक अंकेक्षक की योग्यता : होलिंग्स कम्पनी विभिन्न बैंकों से सावधि ऋण और कार्य पूंजी का लाभ उठा चुकी है, यद्यपि इसके उधार देने के बिजनेस योजना होने के कारण और नॉन-परफॉर्मिंग/क्षतिग्रस्त ऋण पोर्टफोलियो के बढ़ते स्तर का प्रभाव इसके नकद फ्लो/लिक्विडिटी पर पड़ चुका है, और होलिंग्स कम्पनी सावधि ऋणों और कार्य पूंजी सुविधाओं समेत कुछ बैंकों से उधार पर ब्याज की तामील करने में असमर्थ है। इन समेकित वित्तीय परिणामों की टिप्पणी सं. 5 में कम्पनी द्वारा वर्णित अनुसार कारणों की वजह से इन ऋणों पर उपाजित रु. 1,430.06 लाख के ब्याज की गणना / कम्पनी द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया है। इसके परिणामस्वरूप Ind-AS और कम्पनी की लेखा नीतियों के आवेदन में असंगति की अनुभूति नहीं हुई है और यदि उक्त ब्याज की गणना / उपलब्ध कराया दिया गया होता तो ग्रुप की वर्ष हेतु कुल व्यापक आय, और उधार और बैलेंस शीट डेट के अनुसार अन्य इक्विटी रु. 1782.10 लाख और रु. 7155.15 लाख और रु. 4750.26 लाख के रिपॉजिट आंकड़ों के प्रतिकूल रु. 352.04 लाख और रु. 8585.21 लाख और रु. 3320.20 लाख क्रमशः होते।											
कृते व इंटेक कैपिटल लिमिटेड के निदेशक मंडल की ओर से हरसा/- संजीव गोयल (प्रबंध निदेशक) डीआईएन -00018702											
स्थान : नई दिल्ली दिनांक : 21 जून, 2021											

## कोरोना से मिली राहत

## देश के 90 फीसदी जिलों में घटने लगे कोरोना संक्रमण के मामले



हरिभूमि ब्यूरो ►► नई दिल्ली

देश में अब लगातार कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में कमी देखने को मिल रही है। हालांकि अभी भी भारत में रोजाना 50 हजार से अधिक नए कोरोना केस सामने आ रहे हैं। इस बीच राहत की खबर यह भी है कि देश के जिन 650 जिलों के आंकड़े उपलब्ध हैं, उनमें से 90 फीसदी जिलों में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से घटते देखे जा सकते हैं। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार 12 जून से 19 जून के बीच देश के 70 जिलों में ही कोरोना संक्रमण के सक्रिय मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिली है। वहीं सिर्फ 27 जिलों में ही कोरोना के सक्रिय केस की संख्या 100 से अधिक रही। जबकि 18 जिलों में यह आंकड़ा एकल संख्या में रहा। इनमें से 23 जिले पश्चिम बंगाल में हैं।

## प. बंगाल अकेला राज्य, जहां दर्ज की गई बढ़ोतरी

पश्चिम बंगाल ही देश का इकलौता राज्य है, जहां पिछले हफ्ते कोरोना के सक्रिय मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिली है। यहां कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 1.32 लाख से घटकर 15000 पहुंच गई थी। ऐसा 20 दिनों में हुआ, लेकिन इसके बाद संख्या बढ़ने लगी। 19 जून तक राज्य में कोरोना के 23 हजार सक्रिय मामले थे। इस मामले में यह देश का आठवां राज्य है। हालांकि पश्चिम बंगाल में अब कोरोना के रोजाना आने वाले नए मामलों की संख्या में कमी आ रही है। ये केस अब रोजाना 3000 से भी कम सामने आ रहे हैं।

## 88 दिनों के बाद कोरोना के सबसे कम मामले

हालांकि अभी भी कोरोना से ठीक होने वाले और संक्रमित होने वाले लोगों की संख्या का अंतर काफी कम है। देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर अब तकरारीबन काबू में आती जा रही है। पिछले 88 दिनों में पहली बाद पहली बार कोरोना संक्रमण के सबसे कम 53,256 मामले दर्ज किए गए। इसके साथ ही



गई। जबकि इसी अवधि में 78,190 मरीजों के रोगमुक्त होने से महामारी को मात देने वालों का आंकड़ा भी बढ़कर 2,88,44,199 हो गया है। सक्रिय मामलों में फिर 26,356 की कमी आई और कुल संख्या घटकर 7,02,887 हो गई। साथ ही सक्रिय मामलों की दर भी कम होकर 2.35 फीसदी पर आ गई।

रिकवरी दर बढ़कर 96.33 फीसदी पर पहुंच गई। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से सोमवार को जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक, बीते 24 घंटे के भीतर देश में कोरोना संक्रमण के 53,256 नए मामले सामने आए। जिससे संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 2,99,35,221 पर पहुंच गई।